



Date: 15/08/2021

To,  
The Listing Compliance Department,  
BSE Limited,  
P. J. Tower, Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
**Scrip Code: 534809**

To,  
The Listing Compliance Department,  
National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai – 400051  
**Symbol: PCJEWELLER**

**Sub.: Newspaper publication given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the newspaper publication made by the Company pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on August 15, 2021 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding un-audited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2021.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours sincerely,  
For **PC Jeweller Limited**

  
  
(VIJAY PANWAR)  
**Company Secretary**

Encl.: As above

**PC Jeweller Limited**

**ACE EXPORTS LIMITED**

Regd. Office: Lower Ground Floor, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110001 Tel. No. 0011-23414946-49, Fax: 0011-23414945  
CIN: L14111UP990100050 E-mail: aceexport@rediffmail.com Website: www.aceexport.com

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2021**

Sl. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2021	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020
1.	Total Income from operations (Net)	16,083.46	69,250.63	17,133.10	11,005.53
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	262.61	2,028.29	1,100.53	1,100.53
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)#	262.61	2,028.29	1,100.53	1,100.53
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	195.19	1,505.67	816.05	816.05
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax))	192.37	1,492.63	813.21	813.21
6.	Equity Share Capital (Face value of ₹1/- each)	501.04	501.04	501.04	501.04
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		9,792.52		
8.	Earnings Per Share (of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	(a) Basic	0.39	3.01	1.63	1.63
	(b) Diluted	0.39	3.01	1.63	1.63

Notes:  
1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on company's website (www.aceexport.com).  
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 13th August, 2021 and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 14th August, 2021.  
3. The limited review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the auditors of the Company.

For and on behalf of the Board  
**ACE EXPORTS LIMITED**  
Sd/-  
Rajesh Arora  
(Chairman & Managing Director)  
DIN: 00411653

**SUBROS LIMITED**

Regd. Office: Lower Ground Floor, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110001 Tel. No. 0011-23414946-49, Fax: 0011-23414945  
CIN: L14890DL1985PDC001034  
E-mail: ts@subros.com Website: www.subros.com

**NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) AND E-VOTING INFORMATION**

1. The 36th AGM of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 14th September, 2021 at 11:30 am through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (ACT) and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 9th April, 10th April, 20th May, 2020 and 19th June, 2021 respectively and other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI to transact the business set out in the Notice (including Addendum to the Notice) (AGM/Notice) convening the AGM.

2. The Notice of the AGM and Annual Report shall be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company's Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website i.e. www.subros.com and the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.  
3. The procedure for attending the AGM through VC/OAVM is explained in the Notice of the AGM and the website to attend the AGM is: [www.evoting.nst.com](http://www.evoting.nst.com). Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum as per act.

4. **Manner of registering/ updating email addresses:**  
(i) Members holding their shares in physical form: Please send e-mail to the Company at [rajesh.arora@subros.com](mailto:rajesh.arora@subros.com) or to its Registrar and Transfer Agent (RTA) at [adm@nsdl.com](mailto:adm@nsdl.com) or [rajesh.arora@subros.com](mailto:rajesh.arora@subros.com) mentioning the name and address of the Member, Folio number, e-mail address, self attested copy of PAN card and self attested copy of address proof (e.g. Driving License, Voter ID, Passport etc.) and the contact telephone number.  
(ii) Members holding shares in dematerialized form: Please contact your Depository Participant whom you maintain your demat account for registration/ updation of e-mail.

5. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**  
(i) Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system (e-voting). The manner of e-voting by Members holding shares in dematerialized form (physical form and members who have not registered with the Depository Participant) will be as per the Notice of the AGM which will also be available on the website of the Company i.e. [www.subros.com](http://www.subros.com).  
(ii) The facility for voting through electronic voting system will also be made available to the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.  
(iii) The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email address is not registered with the Company (RTA/ Depository Participant) may generate login credentials by following instructions given in the Notice to Notice of AGM.

6. **Manner of registering mandate for receiving Dividend:**  
Members are requested to register/ update their complete bank details:  
(i) Members holding shares in dematerialized form: With their Depository Participant with whom they maintain their demat accounts;  
(ii) Members holding shares in physical form: With the Company at [rajesh.arora@subros.com](mailto:rajesh.arora@subros.com) or with Registrar and Transfer Agent (RTA) at [adm@nsdl.com](mailto:adm@nsdl.com) or members who have not registered with the Depository Participant shall provide in the Notice of the AGM which will also be available on the website of the Company i.e. [www.subros.com](http://www.subros.com).  
(iii) Payment of Dividend will be subject to deduction of Tax at Source (TDS) at applicable rates. For more details, please refer Notice to the Notice of the AGM.

7. The Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from 08th September, 2021 to 14th September, 2021 (both days inclusive).  
8. Members are requested to carefully read all the notices set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

New Delhi  
14th August, 2021

For Subros Limited  
Rajesh Arora  
Company Secretary

**PEARL POLYMERS LIMITED**

Regd. Office: C-5/72, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020, INDIA  
Tel. No: +91-11-47480740, Fax: +91-11-47480746  
E-mail: [pearl@pearlnet.net](mailto:pearl@pearlnet.net), Web: [www.pearlnet.net](http://www.pearlnet.net)

**Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021**

Sl. No.	Particulars	For quarter ended		Year ended
		30.06.2021 (Unaudited)	30.06.2020 (Unaudited)	
1.	Total Income from operations (Net)	5,193.75	2,201.25	2,282.50
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	3,431.23	(247.25)	(102.79)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3,431.23	(247.25)	(102.79)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	3,054.50	(247.25)	(102.79)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3,052.33	(284.46)	(94.76)
6.	Equity Share Capital	1,882.68	1,882.68	1,882.68
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			720.50
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	1. Basic	18.15	(14.7)	(0.61)
	2. Diluted	18.15	(14.7)	(0.62)

Notes:  
The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 is available on the Stock Exchange websites: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website: [www.pearl.net](http://www.pearl.net).

For PEARL POLYMERS LIMITED  
Sd/-  
Chand Sethi  
Chairman & Managing Director  
DIN: 00002544

**Canara Bank** Branch: Surya Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh  
Email: [cb-19345@canarabank.com](mailto:cb-19345@canarabank.com)

Ref. No. 19345/RSPAR/SARFAESI/2 2021 TO BORROWERS/ GUARANTORS Date: 02.06.2021

Name	Address
R S Paper Product Prop. Mr. Shubham Khanna	51 C, Second Floor, Pocket-A, Satyam Enclave, Jhilmil Delhi.
Mr. Manoj Khanna	51 C, Second Floor, Pocket-A, Satyam Enclave, Jhilmil Delhi.

Dear Sir/Madam,  
NOTICE IN THE INTEREST OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.  
(1) We have, at your request, granted to borrowers various credit limits for an aggregate amount of Rs. 26,50,000/- and we give below full details of various credit facilities granted to us.

Sl. No.	Nature of Facility/ Account Number	Limit/Loan amount (Rs.)	Outstanding Liability (Rs.)	NPA Date
1	9345140000096	14,00,000	15,23,152.29	
2	93457910000250	9,00,000	7,34,606.46	01/04/2021
3	93459160000069	3,50,000	3,67,948.64	
	<b>Total</b>	<b>26,50,000</b>	<b>26,25,707.39</b>	

(2) As you have defaulted in repayment of your liabilities, we have classified your accounts as Non Performing Asset on the dates in accordance with the direction/circulars issued by the Reserve Bank of India.  
(3) In view of continued default in payment against agreed terms of loan documents, the whole amount has become payable. Hence a sum of Rs. 26,25,707.39 (Rupees Twenty Six Lakh Twenty Five Thousand Seven Hundred Eighty & Thirty Nine Paise only) is due along with interest from 31.05.2020 and costs etc.  
(4) We also inform you that in spite of our repeated notices and oral requests for repayment of the entire amount due to us, you have not so far paid the same.  
(5) You are aware that the various limits granted to you are secured by the following assets: SECURED ASSETS.

Details of Property:- Residential Flat No. 51-C, DDALIG Flat, Satyam Enclave, Jhilmil Delhi. Flat is measuring 378 sq. ft. Owned by Mr. Manoj Khanna and Bounded - On the North by Flat no. 50-G, On the South by Flat no. 52-C, On the East by Another Building, On the West by Entry.  
(6) For the reasons stated, we hereby call upon all of you to discharge in full your liabilities to us within a period of 60 days from the date of this notice, failing which, we will be exercising the powers under Sec. 13 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act against the secured assets mentioned above. The powers available to us under Sec. 13 of the Act inter alia includes (i) Power to take possession of the secured assets of the borrower including the rights to transfer by way of lease, assignment or sale for realizing secured asset, (ii) Take over the management of the business including the rights to transfer by way of lease, assignment or sale & realize the secured debt, and any transfer by way of lease, assignment or sale & realize the secured debt, and any transfer of secured asset by us shall vest in the transferee of rights, or in relation to the secured asset transferred as if the transfer had been made by you.

(7) The amount realized from exercising of the powers mentioned above, will first be applied in payment of all costs, charges and expenses, which in the opinion of us have been properly incurred by us or any assignee/ transferee/ transferee, and secondly application of discharge of the dues of us as mentioned above with contractual interest from the date of this notice till the date of actual realization, and the residue of the money, if any, shall be paid to you.  
(8) Please take note that after receipt of this notice, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the Secured Assets referred to in this notice, without prior written consent of the Bank (Secured Creditor). If done it is an offence punishable under Section-29 of the Act.  
(9) Your attention is also invited to provisions of sub-section (3) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.  
(10) Please take further note that this is without prejudice to the rights of the Bank to proceed against all of you before the Debt Recovery Court for recovery of the entire balance amount outstanding or any part thereof along with interest payable and costs till the date of realization.

Date: 02.06.2021 Place: Ghaziabad. Authorised Officer

**Kriti Nutrients Ltd.**

Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Sivaganj, Indore-452 007 (M.P.)  
Phone: 0731-2719100/ 26 E-mail: [cs@kritiindia.com](mailto:cs@kritiindia.com); Website: [www.kritinutrients.com](http://www.kritinutrients.com)

**Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2021**

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Quarter ended
		30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	
1.	Total Income from operations	16,083.46	69,250.63	17,133.10
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or Extraordinary items)	262.61	2,028.29	1,100.53
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	262.61	2,028.29	1,100.53
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	195.19	1,505.67	816.05
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the Period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax))	192.37	1,492.63	813.21
6.	Equity Share Capital (Face value of ₹1/- each)	501.04	501.04	501.04
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		9,792.52	
8.	Earnings Per Share (of ₹1/- each) (for continuing and discontinued operations)-			
	(a) Basic	0.39	3.01	1.63
	(b) Diluted	0.39	3.01	1.63

Notes:  
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and on company's website ([www.kritinutrients.com](http://www.kritinutrients.com)).  
2. The above results have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 13th August, 2021 and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 13th August, 2021.  
3. The limited review as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been completed by the auditors of the Company.

For Kriti Nutrients Ltd.  
Sd/-  
Shiv Singh Mehta  
(Chairman & Managing Director)  
DIN: 00023523

**PUBLIC NOTICE**  
**SURRENDER OF INVESTMENT ADVISER REGISTRATION**  
Atok Jain  
SEBI Investment Adviser  
Registration No. INA000007502  
86/02 FF, Sardarjana Enclave, Delhi.  
National Capital Territory of Delhi, 110029  
Notice is hereby given that Mr. Atok Jain of Weekend Investing intends to surrender its registration as Investment Adviser. Any agreement party may make any representation against the surrender to the Atok Jain at the Registrar's Office as indicated above or before SEBI in SEBI NSEI Complex, Office Tower-1, 8th Floor, Plot 8, East Wing, Ring Road, New Delhi - 110021, within 7 days of the date of notice.

**SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED**

Regd Office: 'Vishwakarma', 86C, Topsia Road (South), Kolkata - 700 046  
Tel.: +91 33 22850112-15, 61607734, Fax: +91 33 2285 8501/7542  
Website: [www.srei.com](http://www.srei.com), Email for Investors: [investor.relations@srei.com](mailto:investor.relations@srei.com)  
(CIN) : L29219WB1985PDC053352

**EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2021**

Particulars	₹ (in Lakhs)		
	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
	30-Jun-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	30-Jun-20 (Unaudited)
Total Income from Operations	80,954	3,43,082	1,21,494
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(97,038)	(7,17,881)	3,486
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(97,038)	(7,17,881)	3,486
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)##	(97,105)	(7,33,839)	2,301
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(68,044)	(7,20,068)	5,291
Equity Share Capital	50,309	50,309	50,309
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		(3,68,209)	
Earning Per Share (Face Value of ₹10/- each)			
Basic & Diluted ("not annualised")	*(19.30)	(145.87)	*0.46

#Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with IndAS.

Notes:  
1. The above unaudited consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 14th August, 2021 and subjected to reviewed by the Statutory Auditors, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.  
2. The above is an extract of the unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30th June, 2021 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results for the quarter ended 30th June, 2021 are available on [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.srei.com](http://www.srei.com).  
3. Company's standalone financial information (₹ in Lakhs) is summarized below:-

Particulars	₹ (in Lakhs)		
	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
	30-Jun-21 (Unaudited)	31-Mar-21 (Audited)	30-Jun-20 (Unaudited)
Revenue from Operations	524	4,190	2,835
Profit / (Loss) Before Tax	(460)	(3,13,972)	419
Profit / (Loss) After Tax	(460)	(2,94,472)	249

4. Figures pertaining to the previous period have been rearranged/ regrouped, wherever considered necessary, to make them comparable with those of the current period.

For and on behalf of the Board of Directors  
Sd/-  
Chairman  
DIN: 00193015



For All Advertisement Booking Call : 0120-6651214



**PC Jeweller Limited**

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021

Sl. No.	Particulars	Quarter ended		Quarter ended
		30.06.2021	31.03.2021	
1.	Total Income from Operations	246.78	2826.34	60.87
2.	Net (Loss)/Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(66.67)	7.81	(76.46)
3.	Net (Loss)/Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)#	(66.67)	7.81	(76.46)
4.	Net (Loss)/Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(65.58)	62.00	(73.55)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising (Loss)/Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(61.48)	54.43	(78.85)
6.	Equity Share Capital	465.40	465.40	355.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3803.91	
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	(Not annualised)	(Annualised)	(Not annualised)
	1. Basic	(1.41)	1.53	(1.86)
	2. Diluted	(1.41)	1.53	(1.86)

Key figures of unaudited standalone financial results:

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021	Year ended 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2020
1.	Total Income from Operations	245.83	2659.34	46.54
2.	Net (Loss)/Profit for the period before tax	(80.04)	4.41	(80.91)
3.	Net (Loss)/Profit for the period after tax	(59.70)	60.84	(78.04)

Notes:  
The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2021 are available on the websites of BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the website of the Company at the URL: <https://corporate.pcjeweller.com/financial-results-and-statements-report>.

For and on behalf of the Board  
**PC Jeweller Limited**  
Sd/-  
Baism Garg  
(Managing Director)  
DIN: 00032083  
Place: New Delhi  
Date: August 14, 2021  
Regd. Office: C-54, Preit Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092, CIN: L36811DL2005PLC13429  
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, Website: [www.pcjeweller.com](http://www.pcjeweller.com), e-mail: [info@pcjeweller.com](mailto:info@pcjeweller.com)

पार्षदों के नामांकन पर आदेश के बाद गृह मंत्री से मिले राज्यपाल

मुंबई, 14 अप्रैल (भाषा)।

शुक्रवार शाम को हुई बैठक को 'शिष्टाचार भेद' करार दिया।

कोश्यारी द्वारा अपने कोटे से विधान परिषद (एमएलसी) के सदस्यों के रूप में 12 व्यक्तियों को नामित करने के लिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर नियंत्रण नहीं देते।

नागरिकों पर फैसला लेने के संबंध में राज्यपाल को निदेश के अनुरोध के लिए न्यायिक के एक व्यक्ति द्वारा दायित्व था।

प्रस्ताव को 'गंता' मंत्रिमंडल के राज्यपाल का 'संविधानिक अधिकार' कहा गया।

उपक्रैद की सजा काट रहे व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

दावा किया कि घटना के समय वह किशोर था

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा)।

एक महिला को हत्या के मामले में उपक्रैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर दावा किया है कि अप्रैल 2001 में घटना के समय वह किशोर था।

शांति न्याय केंद्र न्याय लिमिटेड Containor Corporation of India Ltd.

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2020. Rows include Revenue from operations, Total Income, Net Profit/Loss, etc.

SURYA INDIA LIMITED

Regd. Office: B-11F-12, Mahan Co-operative Industrial Estate, Matunga Road, New Delhi-44

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2020. Rows include Revenue from operations, Total Income, Net Profit/Loss, etc.

DCM FINANCIAL SERVICES LIMITED

Regd. Off: C7/3, (Mezzanine Floor), Okhla Industrial Area, Phase - 2, New Delhi - 110020.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

PC Jeweller Limited

Extract of unaudited consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2021

Table with 4 columns: Particulars, Quarter Ended 30.06.2021, Year Ended 31.03.2021, Quarter Ended 30.06.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

Key figures of unaudited standalone financial results:

Table with 4 columns: Particulars, Quarter Ended 30.06.2021, Year Ended 31.03.2021, Quarter Ended 30.06.2020. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

For and on behalf of the Board PC Jeweller Limited

Place: New Delhi Date: August 14, 2021

Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110032, CIN: L36911DL2005PLC3134929

Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, Website: www.pcjeweller.com, e-mail: info@pcjeweller.com

यूप्लेक्स लिमिटेड

30.06.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान अनकंक्षित समकक्ष एवं स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2021. Rows include Revenue from operations, Total Income, Net Profit/Loss, etc.

Key figures of unaudited standalone financial results:

Table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2021. Rows include Total Income from Operations, Net Profit/Loss, etc.

For and on behalf of the Board YUFLEX Ltd.

Place: New Delhi Date: August 14, 2021

Regd. Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110032, CIN: L36911DL2005PLC3134929

Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, Website: www.yuflex.com, e-mail: info@yuflex.com

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट सिंडिकेट Syndicate

बिक्री सूचना

प्रतिष्ठीकृत वित्तीय परिणामों के लिए सूचना

अवस्य समर्थित, वृद्धि, दीक्षा, दीक्षा और इकाई प्रकाश, यदि कोई, का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है -

Large table with 4 columns: Particulars, 30.06.2021, 31.03.2021, 30.06.2020, 31.03.2021. Rows include Revenue from operations, Total Income, Net Profit/Loss, etc.

दिनांक 12.08.2021, स्थान: नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी: केनरा बैंक